

## भारत - यूनान सम्बंध

यूनान ने अपना राजदूतावास नई दिल्ली में मई, 1950 में खोला था जबकि भारत ने भारत के राजदूतावास की स्थापना एथेन्स में मार्च, 1978 में की थी। भारत और यूनान के बीच अंतर्क्रिया-कलाप प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। आधुनिक काल में दोनों देशों के बीच सम्बंध लोकतंत्र की साझी वचनबद्धता, विश्व में शांति और विकास तथा न्याय और समानता के सिद्धांतों पर निर्मित सामाजिक प्रणाली पर आधारित है। भारत और यूनान संयुक्त राष्ट्र सुधारों और साइप्रस जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी साझे मत रखते हैं। यूनान भारत के महत्वपूर्ण विदेश नीतियों के विषयों का सदैव ही समर्थक रहा है।

### द्विपक्षीय व्यापार :

मिलियन अमरीकी डॉलर में

वर्ष	भारत का निर्यात	भारत का आयात	कुल व्यापार
2009-10*	452.80	154.13	606.93
2010-2011*	358.84	93.39	452.23
2011-12*	790.06	116.07	906.13
2012-13*	300.13	111.87	412
2013-14* अप्रै.- सित.	165.43	55.43	220.86

(स्रोत: निर्यात-आयात डाटा बैंक, भारत सरकार का वाणिज्य विभाग)

यद्यपि हेल्निक सांख्यिकी प्राधिकरण (ई एल एस टी ए टी) से उपलब्ध कराये गये व्यापार आँकड़े वर्ष 2010-12 में सुधार की स्थिति दर्शाते हैं :

(सभी आँकड़ मिलियन अमरीकी डॉलर में)

	2010	2011	2012	2013 (जन.अग.)

यूनान को भारत का निर्यात	576.9	758.3	367.63	296.5
भारत का यूनान से आयात	81.7	74.5	77.72	43.2

यूनान द्वारा भारत को किये जा रहे निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में कबाड़ (अधिकॉशतः एलूमिनियम एवं लोहा), संगमरमर और ग्रेनाइट आदि सम्मिलित हैं।

भारत द्वारा यूनान को किये जा रहे निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में तिल के बीज, काजू, जमी हुई मछली, कॉफी और विद्युतीय ट्रांसफार्मर आदि सम्मिलित हैं।

#### विमान सेवा सम्बद्धतायें :

भारत और यूनान के बीच कोई भी सीधी विमान सेवा उपलब्ध नहीं है। एथेंस के लिए दुबई, अबू धाबी, इस्तानबुल, दोहा, बहरीन, अम्मान तथा यूरोप के अनेक शहरों से होकर पहुँचा जा सकता है।

\*\*\*\*\*

दिसम्बर, 2013